

सांसे हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगायें हम

शाश्वत कृषि और वानिकी तंत्र अपनाए।  
बेहतर तथा समृद्ध भविष्य पाए।

अनोखी विपणन प्रणाली: कंपनी की हरितगृहों से पौधे सीधे आपके खेत पर पहुँचाए जाते हैं।  
कोई अतिरिक्त परिवहन शुल्क नहीं लिया जाता।



(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)





(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

## नारियल की खेती

देवी-देवताओं की पूजा अर्चना हो या कोई अन्य मांगलिक कार्य, नारियल के बिना अधूरा है। अतः नारियल भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। वाल्मीकि रामायण में नारियल का वर्णन किया गया है। आराध्य फल होने के साथ-साथ दैनिक जीवन में भी नारियल का एक अहम स्थान है। इस तरह नारियल के संस्कृतिक महत्व के साथ-साथ इसका आर्थिक महत्व भी है। नारियल से भारत के छोटे किसानों का जीवन जुड़ा हुआ है। इस वृक्ष का कोई ऐसा अंग नहीं है जो उपयोगी न हो। नारियल का फल पेय, खाद्य एवं तेल के लिए उपयोगी है। फल का छिलका विभिन्न औद्योगिक कार्यों में उपयोगी है तथा पत्ते एवं लकड़ी भी सदुपयोगी हैं। इन्हीं उपयोगिताओं के कारण नारियल को कल्पवृक्ष कहा जाता है।

भारत वर्ष में नारियल की खेती एवं उद्योग के समेकित विकास के लिए भारत सरकार ने 1981 में नारियल विकास बोर्ड का गठन किया। इसका मुख्यालय केरल के कोच्ची शहर में है और इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय पटना (बिहार) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन 5 राज्य स्तरीय केंद्र हैं जो उड़ीसा के भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, मध्य प्रदेश के कोंडेगाँव, असम के गुवाहटी तथा त्रिपुरा के अग्रतला में स्थित है। राज्य स्तरीय केन्द्रों के अतिरिक्त 4 प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, सिंहेश्वर (बिहार), कोंडेगाँव (मध्य प्रदेश), अभयपुरी (असम), बेलबारी (त्रिपुरा) भी पटना क्षेत्रीय कार्यालय के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्यरत हैं। यहाँ से नारियल सम्बन्धी तकनीकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।



(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

## जलवायु एवं भूमि

नारियल के पौधों की अच्छी वृद्धि एवं फलन के लिए उष्ण एवं उपोष्ण जावायु आवश्यक है, लेकिन जिन क्षेत्रों में निम्नतम तापमान 10° सेंटीग्रेड से कम तथा अधिकतम तापमान 40° सेंटीग्रेड से अधिक लम्बी अवधि तक नहीं रहता हो उन क्षेत्रों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके लिए वर्ष भर समानुपातिक रूप से वितरित वर्षा लाभदायक है। समानुपातिक वर्षा के अभाव में सिंचाई की आवश्यकता होती है।

नारियल की सफल खेती के लिए अच्छी जलधारण एवं जलनिकास क्षमता वाली मिट्टी जिसका पी.एच.मान 5.2 से 8.8 तक हो उपयुक्त होती है। केवाल/काली एवं पथरीली मिट्टियों के अलावा ऐसी सभी प्रकार की मिट्टियाँ जिनमें निचली सतह में चट्टान न हो नारियल की खेती के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन बलुई/दोमट मिट्टी सर्वोत्तम पायी गई है।



[www.kaushalkisangroup.com](http://www.kaushalkisangroup.com)



(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

## किस्में

नारियल की किस्मों को दो वर्गों में बांटा गया है जो लम्बी एवं बौनी किस्म के नाम से जानी जाती है। इन दोनों किस्मों के संस्करण से जो किस्में बनाई गई है वे संकर किस्म के नाम से जानी जाती है। गैर-परम्परागत क्षेत्रों के सिंचित क्षेत्रों हेतु ऊँची एवं संकर किस्में अनुशंसित हैं, जबकि पर्याप्त सिंचाई-सुविधाएँ न होने पर केवल ऊँची किस्मों का उपयोग लाभप्रद है। बौनी किस्में गैर-परम्परागत क्षेत्रों की जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं पायी गई है। फिर भी विशेष देखरेख में बौनी किस्मों की खेती भी संभव है।

लम्बी किस्मों की उपजातियों में पश्चिम तटीय लम्बी प्रजाति, पूर्व तटीय लम्बी प्रजाति, तिप्पुर लम्बी प्रजाति, अंडमान लम्बी प्रजाति, अंडमान जायंट एवं लक्षद्वीप साधारण प्रमुख हैं। बौनी किस्मों की उपजातियों में चावक्काड ऑरेंज बौनी प्रजाति एवं चावक्काड हरी बौनी प्रजाति प्रचलित हैं। संकर किस्मों की उपजातियों में मुख्य हैं लक्षगंगा, केरागंगा एवं आनंद गंगा।



(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

## खाद एवं उर्वरक

लंबी अवधि तक अधिक उत्पादन के लिए अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का नियमित प्रयोग आवश्यक है। वयस्क नारियल पौधों को प्रतिवर्ष प्रथम वर्षा के समय जून में 30-40 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट का प्रयोग करें।

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम



[www.kaushalkisangroup.com](http://www.kaushalkisangroup.com)




(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

## निराई-गुड़ाई

नारियल बाग में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नियमित निराई-गुड़ाई एवं जुताई आवश्यक है। इन क्रियाओं से खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही जड़ों में वायु का संचालन पर्याप्त रूप में होता है। आच्छादन कृषि के माध्यम से मिट्टी की आर्द्रता बनी रहती है, मृदाक्षय नहीं होता है तथा इससे भूमि में जैविक पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। इसके लिए मूंग, उड़द, बिना काँटोंवाली छुईमुई, लाजवंती, केलोपोगोनियम, स्टाइलोसेन्थस, सेसबेनिया इत्यादि की बुआई कर सकते हैं।






(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

## मिश्रित फसलन

नारियल के बाग़ में अनेक प्रकार की अन्तर्वर्ती तथा मिश्रित फसलें उगाने की अनुशंसा की जाती है। इन फसलों से नारियल उत्पादकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। अन्तर्वर्ती तथा मिश्रित फसलों के रूप में केला, अनन्नास, ओल, मिर्च, शकरकंद, पपीता, नींबू, हल्दी, अदरक, मौसम्बी, टैपीओका, तेजपात, पान तथा फूल एवं सजावटी पौधे बड़ी सफलतापूर्वक उगाये जा सकते हैं।



[www.kaushalkisangroup.com](http://www.kaushalkisangroup.com)



(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

## नारियल आधारित उत्पाद

खोपड़ा (सूखीगरी), नारियल तेल, सुखाया नारियल चूर्ण (डेसिक्वेटिड नारियल), नारियल क्रीम एवं दूध, नेटा -डी-कोको, नारियल ताड़ी एवं गुड़, नारियल रेशा (कोयर), सक्रियित कार्बन, नारियल खोपड़ी चूर्ण एवं कोयला, नारियल पेड़ के विविध भागों से निर्मित हस्तशिल्प आदि मुख्य एवं सह-उत्पाद हैं जिन पर आधारित उद्योग एवं कुटीर धंधों को अपनाकर कृषक परिवार के सदस्य, बेरोजगार युवक एवं कारीगर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

[www.kaushalkisangroup.com](http://www.kaushalkisangroup.com)





(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

सांसे हो रही हैं कम,  
आओ पेड़ लगायें हम

**कौशल किसान ग्रुप ऑफ़ कम्पनी द्वारा किसानों को मुफ्त में दी जाने वाली सेवाएं :-**

- पौधों को किसानों के घर या खेत तक पहुंचाने के लिए मुफ्त वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
- क्षतिग्रस्त पौधों की प्रतिस्थापना। यह सुविधा सिर्फ एक बार के प्रतिस्थापन के लिए होती है।
- २ साल तक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा समय समय पर देखभाल की सुविधा दी जाती है।
- किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए हमारे प्रतिनिधियों से मुफ्त तकनीकी सेवा फ़ोन द्वारा या व्यक्तिगत रूप में ले सकते हैं
- किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए कम्पनी का टोल फ्री नंबर उपलब्ध है **-18001236246**



[www.kaushalkisangroup.com](http://www.kaushalkisangroup.com)



(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)

**(AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)**

**Corp. Office : H.No. 265, Opp.Tejaji Ka Mandir,**

**Khedli Phatak, Kota Raj. - 324001 | Ph.: 0744 2323168**

**Branch Office : Plot.No. 194, R K Business Centre, Near, Shivaji Nagar, Nagpur,  
Maharashtra - 440010**

**Branch Office : Malaviya Chowk, Wing - B, 7th Floor, Office No. 5, Gondal Road,  
Rajkot (GUG)**

**Branch Office : Near Agarwal Dharamshala, Sec. 11, Hiran Mangri, Udaipur  
Rajasthan - 313001**

**Toll Free No. 18001236246 | Website : [www.kaushalkisan.com](http://www.kaushalkisan.com) | [www.navjeevanbio.com](http://www.navjeevanbio.com)**